



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1573]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2019/वैशाख 27, 1941

No. 1573]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2019/VAISAKHA 27, 1941

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2019

विषय:—रेलवे के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक/विद्युत निरीक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया।

का.आ. 1765(अ).—विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपयुक्त सरकार एतद्वारा अधिसूचना के तहत विधिवत अर्हता प्राप्त व्यक्ति को मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रत्येक निरीक्षक भारतीय रेल की सभी विद्युत संबंधी संस्थापनाओं को शामिल करते हुए भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेंगे।

मुख्य विद्युत निरीक्षक (सी.ई.आई.) या विद्युत निरीक्षक (ई.आई.) या सहायक विद्युत निरीक्षक (ए.ई.आई.) का पद रेलवे बोर्ड/क्षेत्रीय रेलों में उपलब्ध विद्युत अधिकारियों के पदनाम पर आधारित है। अर्हता संबंधी नियम **नवीनतम संशोधनों सहित मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक नियम 2006 की अर्हता, शक्तियों और कृत्यों में अंतर्विष्ट है।**

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि केवल विधिवत अर्हता प्राप्त व्यक्ति ही निरीक्षकीय भूमिका निभाने के लिए हैं, इसके लिए रेलवे बोर्ड/क्षेत्रीय रेलवे/रेल उत्पादन इकाईयों में मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या सहायक विद्युत निरीक्षक की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- (i) सी.ई.आई./ई.आई./ए.ई.आई. की नियुक्ति के लिए **नवीनतम संशोधनों सहित मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक नियम 2006 की अर्हता, शक्तियों और कृत्यों** में यथा अंतर्विष्ट नियम 4 और 5 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन किया जाए
- (ii) अपर सदस्य विद्युत (ए.एम.एल.) **सामान्यतः** भारतीय रेल की मुख्य विद्युत निरीक्षक होंगे/होंगी बशर्ते उपरलिखित (i) के अंतर्गत शर्तों का अनुपालन होता हो। वह मुख्य विद्युत निरीक्षक के रूप में तब तक कार्य करती रहेंगे/रहेंगी जब तक निम्न (VIII) और (IX) में वर्णित शर्तें पूरी होती हों।

(iii) मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या सहायक विद्युत निरीक्षक की नियुक्ति विद्युत संवर्ग से संबंधित अधिकारियों से की जाए बशर्ते वे उक्त नियमों में यथा अंतर्विष्ट आवश्यक अर्हता, अनुभव और उपयुक्तता को पूरा करते हों।

(iv) ए.ई.आई. की नियुक्ति या मौजूदा सूची की समीक्षा संबंधी प्रस्ताव क्षेत्रीय रेलवे या उनके अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध रेल इकाई के संबंधित प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर, जैसा भी मामला हो, की ओर से भेजा जाए। विद्युत निरीक्षक द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड के विद्युत ऊर्जा प्रबंधन (ई.ई.एम.) निदेशालय को अग्रेषित किया जाए।

(v) क्षेत्रीय रेलवे/रेल इकाई से प्राप्त उक्त सिफारिश के आधार पर ए.ई.आई. की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के ई.ई.एम. निदेशालय से भेजा जाएगा। इसी प्रकार, ई.आई. की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सीधे रेलवे बोर्ड के ई.ई.एम. निदेशालय से भेजा जाएगा। रेल मंत्रालय के मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव की जांच की जाएगी ताकि नवीनतम संशोधनों सहित मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक नियम 2006 की अर्हता, शक्तियों और कृत्यों में यथा अंतर्विष्ट अर्हता, अनुभव और उपयुक्तता की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव को भी संबंधित बोर्ड सदस्य अर्थात् सदस्य कर्षण (एम.टी.आर.) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया जाए।

(vi) यदि क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर के पास उचित कारण हो कि ई.आई. या ए.ई.आई. में से कोई भी व्यक्ति ई.आई./ए.ई.आई. के रूप में अपेक्षित अर्हता, अनुभव और उपयुक्तता को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह रेल मंत्रालय के मुख्य विद्युत निरीक्षक को ई.आई./ए.ई.आई. के रूप में किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजने के लिए सूचित करें।

(vii) साथ ही, यदि मुख्य विद्युत निरीक्षक का यह मानना है या उन्हें पता चलता है कि कोई विशिष्ट पदाधिकारी ई.आई./ए.ई.आई. के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है तो वह तत्संबंधी यथोचित प्रतिस्थापन के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे।

(viii) यदि सी.ई.आई. का यह मानना है कि वह सी.ई.आई. के रूप में कार्य करने के लिए अपेक्षित अर्हता, अनुभव और उपयुक्तता को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए यह अनिवार्य है कि वह उनके स्थान पर सी.ई.आई. के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति के लिए तत्काल बोर्ड (सदस्य कर्षण) को सूचित करें।

(ix) यदि बोर्ड (सदस्य कर्षण) का यह मानना है या उन्हें पता चलता है कि कोई विशिष्ट पदाधिकारी सी.ई.आई./ई.आई./ए.ई.आई. के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है तो वह तत्संबंधी यथोचित प्रतिस्थापन के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे।

(x) रेलवे बोर्ड का विद्युत ऊर्जा प्रबंधन निदेशालय अधिकारी के पद की अर्हता और अनुभव की समय-समय पर समीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियुक्त किया गया व्यक्ति **नवीनतम संशोधनों सहित मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक नियम 2006 की अर्हता, शक्तियों और कृत्यों** के लिए विधिवत अर्हता प्राप्त है और शर्तों को पूरा करता है।

(xi) उक्त प्रक्रिया का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाए और किसी भी प्रकार से इसका उल्लंघन होने पर ऐसी नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी।

[सं. 2019/ईईएम/110/1]

शलभ गोयल, कार्यपालक निदेशक (विद्युत ऊर्जा प्रबंधन)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2019

Sub: Procedure for appointment of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspector of Railways.

S.O. 1765(E).—In exercise of the powers conferred by Section 162 of The Electricity Act 2003, the appropriate Government hereby appoints duly qualified person to be Chief Electrical Inspector or Electrical Inspectors

and every such Inspector so appointed shall exercise powers and perform the function of Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector under The Electricity Act, 2003 (with latest amendments) covering all electrical installations of Indian Railways.

Chief Electrical Inspector (CEI) or Electrical Inspector (EI) or Assistant Electrical Inspector (AEI) is based on the designation of the Electrical officers available in Railway Board/ Zonal Railways. The rule regarding qualification is contained in **Qualification, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 with latest amendments.**

In order to ensure that only duly qualified persons are in place for performing inspectorial role, following procedure should be adopted for appointment of Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector or Assistant Electrical Inspector on Railway Board/Zonal Railways/Railway production units:

- i) The appointment of CEI/EI/AEI should be strictly in accordance with Rule 4 and 5 as contained in **Qualification, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 with latest amendments.**
- ii) Additional Member (Electrical), Railway Board shall ordinarily be the CEI for Indian Railways, subject to meeting other conditions as given in (i) above. He/she will continue to perform functions as CEI subject to stipulations mentioned in (viii) and (ix) below.
- iii) Appointment of Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector or Assistant Electrical Inspector should be made from the officer belonging to Electrical cadre subject to meeting necessary qualification, experience and suitability as contained in aforesaid rules.
- iv) The proposal regarding appointment or review of existing list of AEI should be initiated from the concerned Principal Chief Electrical Engineer of the Zonal Railway or a Railway Unit available in that jurisdiction, as the case may be. The proposal duly approved by Electrical Inspector should be forwarded to Electrical Energy Management (EEM) Directorate of Railway Board.
- v) Based on above recommendation received from Zonal Railway/Railway Unit, a proposal pertaining to appointment of AEI will be initiated in the EEM Dte. of Railway Board. Similarly, appointment for EI shall be initiated in EEM Dte of Railway Board directly. The proposal for appointment has to be personally examined by Chief Electrical Inspector of Ministry of Railways for ensuring fulfillment of requirement of qualification, experience and suitability as stipulated in Qualifications, powers and functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rule, 2006 with latest amendments. The proposal for issuance of notification should also be duly approved by the concerned Railway Board Member i.e. Member Traction (MTR).
- vi) In case, Principal Chief Electrical Engineer of Zonal Railways has reason to believe that either EI or AEI are not meeting the requisite qualification, experience and suitability to work as EI/AEI, it will be incumbent upon him to inform Chief Electrical Inspector, Ministry of Railways for initiating appointment of other officials as EI/AEI.
- vii) Also, in case Chief Electrical Inspector is of the opinion or has come to his notice that a particular incumbent is not found suitable for the post of EI/AEI, he/she may initiate process for making suitable replacement thereof.
- viii) In case, CEI has reason to believe that he/she, himself/herself, is not meeting the requisite qualification, experience and suitability to work as CEI, it will be incumbent upon him/her to inform Board (Member Traction) immediately for appointment of other officials as CEI in his/her place.
- ix) If Board (Member Traction) is of the opinion or has come to his notice that a particular incumbent is not found suitable for the post of CEI/EI/AEI, he may direct to initiate process for making suitable replacement thereof.

- x) Electrical Energy Management Directorate of Railway Board shall from time to time review the qualification and experience of occupant of the post for ensuring that the person so appointed are duly qualified and meeting the condition as contained there in the **Qualification, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 with latest amendments.**
- xi) The above procedure should be followed scrupulously and any violation of same should make such appointment null and void.

[No. 2019/EEM/110/1]

SHALABH GOEL, Executive Director (Electrical Energy Management)